



July 23, 2021

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001

Ref: H.P. Cotton Textile Mills Limited (Scrip Code: 502873)

Sub: Reminder Letter to Shareholders - Unclaimed Dividend (Final Dividend 2013-14)

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the following documents:

1. Copies of newspaper advertisement published in Business Standard (English Newspaper) and Hari Bhoomi (Hindi Newspaper).
2. Copy of reminder letter to shareholders.

The above reminder letters were sent to the shareholders who have not claimed their dividends for seven or more consecutive years and whose shares are liable for transfer to the IEPF Authority. This is pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For **H.P. Cotton Textile Mills Limited**

Shubham Jain

Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above



H.P. Cotton Textile Mills Limited

(A Government of India recognised Star Export House)

Corporate Office:

F-0, The Mira Corporate Suites,
1 & 2, Old Ishwar Nagar, Mathura Road,
New Delhi - 110065, India

www.hpthreads.com

T: +91 11 26927387, 49073415
+91 11 41540471/72/73
F: +91 11 49073410

E: info@hpthreads.com

Regd. Office & Works:

15 K.M. Stone, Delhi Road,
V.P.O Mayar, Hisar - 125 044,
Haryana, India

CIN NO. L18101HR1981PLC012274



ISO 9001 : 2008

Continued			
JAIPUR	HOU/JPR/0519/697971	Mr. Rohit Agarwal, Mr. Om Prakash Agarwal R/o971 Panon Ka Dariba Chaakdi Ram Chandra Ji . W No 58, Jaipur, Rajasthan	23.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA Property(ies) Mortgaged : NORTH PART OF, PLOT NO 36, GOVIND NAGAR EAST, AMER ROAD, Jaipur, Jaipur.			
JAIPUR	HOU/JPR/1116/330398	Mr. Saini Ved Prakash, Mrs. Ashwini Suresh LendeR/oPlot No.104-105, Flat No. G-02, Om Residency,Vivek Vihar Shopping Centre, Indian Oman Public School Ke Pass,Durga Mata Mandir, Jaipur, Rajasthan	23.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA Property(ies) Mortgaged : Flat No S 1 Second Floor, Plot No 41, Jyoti Vihar Vistar, Manyawas, Sanganer, Jaipur			
JAIPUR	HOU/JPR/0318/501530	Mr. Sandeep Singh Rathore, Mrs. KusumR/oG1 P No 10 Sunrise City Niwaru Road , Jhotwara, Jaipur, Rajasthan	23.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA Property(ies) Mortgaged : FLAT NO G 1, PLOT NO 10, SUNRISE CITY, NIWARU ROAD, Jaipur, Jaipur, Rajasthan,			
JAIPUR	HOU/JPR/1219/765314	Mrs. Shanti Devi, Mrs. Govind Jaiswal, Mrs. Poonam jayasawal, R/oP No 53 Prem Nagar Purani Chungi Ajmer Road, Jaipur, Rajasthan	23.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA Property(ies) Mortgaged : 9,0,3rd Floor,EWS A,MOJKA LAXMI VIHAR,33, Shri Rampura Bas, Bhankrota, Teshil Sanaganer, Jaipur, Rajasthan, India-302006			
JAIPUR	HOU/JPR/0008666004285	Mr. Shiv Kumar Sharma, R/oBhivani Enclave Street 3 House No.16, Gurgaon, Rajasthan - 122001	23.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA Property(ies) Mortgaged : Flat No S 103, SECOND FLOOR, PLOT NO C, 1055, YOJANA 4 C, LOHA MANDI, MACHEDA AMER, JAIPUR, Jaipur, Rajasthan 302006			
JAIPUR	HOU/JPR/1216/623173	Mr. Surendra Kumar Jangir, JI Craft, Mrs. KonaR/o18 Rameshwar Dham Multipura Schem, Behind Mahesh Public School, Jaipur	23.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA Property(ies) Mortgaged : FLAT NO T 305, SECOND FLOOR, PLOT NO C, 1055, YOJANA 4 C, LOHA MANDI, MACHEDA AMER, JAIPUR, Jaipur, Rajasthan 302006			
JAIPUR	HOU/JPR/0008666005652	Mr. Veena Gangwal, Mr. Neeraj Jain,Director Adarsh Build Estate,R/o81 Ab, Vasudhra Colony, Tonk Road, NR Gopal Pura Bridge, Jaipur, Rajasthan and Shipra Path, Mahavir Marg, Mansarovar,Jaipur.	23.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA Property(ies) Mortgaged : Flat No. A-1806, Sky Terraces, Shipra Path,MANSROVER,JAIPUR,RAJASTHAN,			
JAIPUR	HOU/JPR/0916/318640	Mr. Vijendra Kumar Dixit, Mrs. Sharda Devi DixitR/o112, Sunaro Ka Mohalla Sankhu Fort, Churu, Rajasthan	23.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA Property(ies) Mortgaged : Flat No F-1,1st Floor, P.No.20,Krishni Anusandan Nagar, Gram Chak Gator, Sanganer, Jaipur, Rajasthan, India, 311011			
JAIPUR	NHL/JPR/0218/494940	Mr. Vimalsh Pareek, Mrs. Seema SharmaR/o27 Ganesh Nagar Hamath Pura Jaipur	23.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA Property(ies) Mortgaged : Shop No G 28,GF, P No D 22, Pink City Tower, Bani Park, Jhotwara Road, Jaipur, Jaipur			
JAIPUR	0008666004364	Mr. Vishal Sharma, R/oP No-2684-A FF Block-H Sachivalaya Nagar Vatika Mode, Jaipur, Rajasthan - 302018	23.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA Property(ies) Mortgaged : PLOT NO 2684-A FF BLOCK-H SACHIVALYA NAGAR VATIKA MOD TONK ROAD,JAIPUR			
JAIPUR	HOU/JPR/0318/507832	Mr. Abhay Singh Rathore , Smt. Kishan Kumar R/o51-B, Vivek Vihar Colony, Jagatpura, Jaipur-302017	21.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA - Property(ies) Mortgaged : 51-B, Vivek Vihar Colony, Jagatpura, Jaipur-302017			
JAIPUR	NHL/JPR/1017/439967 & NHL/JPR/0717/409895	Mr. Abhay Sharma, Smt. Neelam Sharma R/oB-56-A, Govind Nagar, Kalwar Road, Jaipur 302012	21.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA - Property(ies) Mortgaged : P-56-A, Govind Nagar, Kalwar Road, Jaipur 302012			
JAIPUR	HOU/JPR/0615/228862	Mr. Prakash Chand Yogi , Mrs. Sangita DeviR/o43 Hingoniya Gaon, Th.Bassi, Jaipur, Rajasthan	23.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA Property(ies) Mortgaged : P NO 7, JAGDISH COLONY, GONER ROAD, Jaipur, Rajasthan, India, 303905			
JAIPUR	NHL/JPR/1118/61190	Mr. Rajendra Kumar Maheshwari & Smt. Suman JethliyaR/oFlat no S-3, Second Floor, at Plot No C-40, Manglam City , Block C, Hathoj, Kalwar Road, Jaipur 302012	17.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA Property(ies) Mortgaged : Flat no S-3, Second Floor, at Plot No C-40, Manglam City , Block C, Hathoj, Kalwar Road, Jaipur 302012			
JAIPUR	NHL/JPR/0919/744935	Mr. Ashok Kumar Marotiya, Mrs. Norti DeviR/oGanesh Pura Gokul Nagar W No 42 BeawarAjmer, Rajasthan	16.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA Property(ies) Mortgaged : NORTH PART OF, P NO 45, PART OF KH NO 793, GOKUL NAGAR, VILLAGE FATEHPURIYA, DOYAM, BEAWAR, AJMER, RAJASTHAN			
JAIPUR	NHL/JPR/1018/595522	Mr. Brij Mohan Sharma, Mr. Gaurav Sharma & Mrs. Madhu SharmaR/o22 To 23 Pnt Colony Ke Pass Vignyan Nagar, Kota, Rajasthan	16.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA Property(ies) Mortgaged : PLOT NO, 2 T 20, VIGYAN NAGAR, KOTA, RAJASTHAN			
JAIPUR	NHL/JPR/0219/656172	Mr. Hemant Kumar Sharma, Vichitra Bhojnalya, & Mrs. Geeta SharmaR/o211/39 Arjun Lal Sethi Nagar Parbat Pura, Ajmer, Rajasthan	16.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA Property(ies) Mortgaged : Plot No 211/39, EWS, ARJUN LAL SETHI, NAGAR, PARBATPURA, Ajmer,			
BIKANER	NHL/BIK/0717/409598 & NHL/BIK/1018/591961	Mr. Ganesh Solanki, Mr. Bhomraj Solanki, Mrs. Surendra Kumar Solanki,R/oOpp. Kachawa ICE Factory, Gajner Road, Bikaner Rajasthan-334001	16.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA Property(ies) Mortgaged : Residential House, Mohalla Sekhan Halal Khoran, Gajner Road, Bikaner, Rajasthan PIN Code:- 334001			
BIKANER	HOU/BIK/0319/657946	Mr. RAKESH KUMAR, Mrs. KOUSHALYA DEVIR/OHOUSE NO. 20, BHOOP COLONY, S.S.B. ROAD, GALI NO. 1, SRIGANGANAGAR, RAJASTHAN, 335001	16.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA Property(ies) Mortgaged : PATIA NO. 8695, SQ NO. 22, KILL NO. 18, CHAK 6-E- CHHOTI, SRIGANGANAGAR, RAJASTHAN- 335001			
BIKANER	0027670001143 & 0027670001233	Mr. Ganpat Ram Suthar, Mr. Lekhram SutharR/ohouse No. 120, Ward No. 6, Near Lakhara Shiv Temple, Nokha, Dist- Bikaner Rajasthan-334803	23.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA Property(ies) Mortgaged : Property 1: Residential House, P NO 90, 202, 203 & HALF PART OF 91 NEAR LAKHARA SHIV TEMPLE, SANSI BAS, NOKHA, DIST- BIKANER-334803 (LAN-0027670001143)			
BIKANER	HOU/BIK/0918/577136	Mr. DAVENDER DHOLPURIYA, Mr. Amichand Nathu ramR/oWard No. 21, Raigar Mohalla, Hanumangarh Town, Hanumangarh, Rajasthan- 335513	23.06.2021
Name & Address of Gwarant(s) - NA Property(ies) Mortgaged : Ward No 21, Raigar Mohalla, Hanumangarh Town, Hanumangarh, Rajasthan- 335513			
SD/- PNB Housing Finance Limited (Authorised Officer)			

JAIPUR	HOU/JPR/0519/697971	Mr. Rohit Agarwal, Mr. Om Prakash Agarwal R/o971 Panon Ka Dariba Chaakdi Ram Chandra Ji . W No 58, Jaipur, Rajasthan	23.06.2021	Rs. 69,32,083.07 (Rupees Sixty-Nine Lakhs Thirty-Two Thousand Eighty-Three and Seven Paise Only) as on 23-06-2021
JAIPUR	HOU/JPR/1116/330398	Mr. Saini Ved Prakash, Mrs. Ashwini Suresh LendeR/oPlot No.104-105, Flat No. G-02, Om Residency,Vivek Vihar Shopping Centre, Indian Oman Public School Ke Pass,Durga Mata Mandir, Jaipur, Rajasthan	23.06.2021	Rs. 31,80,717.12 (Rupees Thirty-One Lakhs Eighty Thousand Seven Hundred Seventeen and Twelve Paise Only) as on 23-06-2021
JAIPUR	HOU/JPR/0318/501530	Mr. Sandeep Singh Rathore, Mrs. KusumR/oG1 P No 10 Sunrise City Niwaru Road , Jhotwara, Jaipur, Rajasthan	23.06.2021	Rs. 23,82,532.25 (Rupees Twenty-Three Lakhs Eighty-Two Thousand Five Hundred Thirty-Two and Twenty-Five Paise Only) as on 23-06-2021
JAIPUR	HOU/JPR/1219/765314	Mrs. Shanti Devi, Mrs. Govind Jaiswal, Mrs. Poonam jayasawal, R/oP No 53 Prem Nagar Purani Chungi Ajmer Road, Jaipur, Rajasthan	23.06.2021	Rs. 8,16,529.01 (Rupees Eight Lakhs Sixteen Thousand Five Hundred Twenty-Nine and One Paise Only) as on 23-06-2021
JAIPUR	HOU/JPR/0008666004285	Mr. Shiv Kumar Sharma, R/oBhivani Enclave Street 3 House No.16, Gurgaon, Rajasthan - 122001	23.06.2021	Rs. 8,91,385.80 (Rupees Eight Lakhs Ninety-One Thousand Three Hundred Eighty-Five and Eighty Paise Only) as on 23-06-2021
JAIPUR	HOU/JPR/1216/623173	Mr. Surendra Kumar Jangir, JI Craft, Mrs. KonaR/o18 Rameshwar Dham Multipura Schem, Behind Mahesh Public School, Jaipur	23.06.2021	Rs. 18,23,195.50 (Rupees Eighteen Lakhs Twenty-Three Thousand One Hundred Ninety-Five and Fifty Paise Only) as on 23-06-2021
JAIPUR	HOU/JPR/0008666005652	Mr. Veena Gangwal, Mr. Neeraj Jain,Director Adarsh Build Estate,R/o81 Ab, Vasudhra Colony, Tonk Road, NR Gopal Pura Bridge, Jaipur, Rajasthan and Shipra Path, Mahavir Marg, Mansarovar,Jaipur.	23.06.2021	Rs. 58,93,307.20 (Rupees Fifty-Eight Lakhs Ninety-Three Thousand Three Hundred Seven and Twenty Paise Only) as on 23-06-2021
JAIPUR	HOU/JPR/0916/318640	Mr. Vijendra Kumar Dixit, Mrs. Sharda Devi DixitR/o112, Sunaro Ka Mohalla Sankhu Fort, Churu, Rajasthan	23.06.2021	Rs. 23,58,123.07 (Rupees Twenty-Three Lakhs Fifty-Eight Thousand One Hundred Twenty-Three and Seven Paise Only) as on 23-06-2021
JAIPUR	NHL/JPR/0218/494940	Mr. Vimalsh Pareek, Mrs. Seema SharmaR/o27 Ganesh Nagar Hamath Pura Jaipur	23.06.2021	Rs. 16,29,495.79 (Rupees Sixteen Lakhs Twenty-Nine Thousand Four Hundred Ninety-Five and Seventy-Nine Paise Only) as on 23-06-2021
JAIPUR	0008666004364	Mr. Vishal Sharma, R/oP No-2684-A FF Block-H Sachivalaya Nagar Vatika Mode, Jaipur, Rajasthan - 302018	23.06.2021	Rs. 9,90,125.87 (Rupees Nine Lakhs Ninety, Thousand One Hundred Twenty-Five and Eighty-Seven Paise Only) as on 23-06-2021
JAIPUR	HOU/JPR/0318/507832	Mr. Abhay Singh Rathore , Smt. Kishan Kumar R/o51-B, Vivek Vihar Colony, Jagatpura, Jaipur-302017	21.06.2021	Rs. 25,35,906.98 (Twenty Five Lac Thirty Five Thousand Nine Hundred Six and Ninety Eight paise only) as on 21-06-2021
JAIPUR	NHL/JPR/1017/439967 & NHL/JPR/0717/409895	Mr. Abhay Sharma, Smt. Neelam Sharma R/oB-56-A, Govind Nagar, Kalwar Road, Jaipur 302012	21.06.2021	Rs. 15,41,425.99 (Fifteen Lac Forty One Thousand Four Hundred Twenty Five and Ninety Nine paise only) as on 21-06-2021
JAIPUR	HOU/JPR/0615/228862	Mr. Prakash Chand Yogi , Mrs. Sangita DeviR/o43 Hingoniya Gaon, Th.Bassi, Jaipur, Rajasthan	23.06.2021	Rs. 13,18,996.28 (Rupees Thirteen Lakhs Eighteen Thousand Nine Hundred Ninety-Six and Twenty-Eight Paise Only) as on 23-06-2021
JAIPUR	NHL/JPR/1118/61190	Mr. Rajendra Kumar Maheshwari & Smt. Suman JethliyaR/oFlat no S-3, Second Floor, at Plot No C-40, Manglam City , Block C, Hathoj, Kalwar Road, Jaipur 302012	17.06.2021	Rs. 20,54,413.39 (Twenty Four Lac Fifty Thousand Four Hundred Thirteen and Thirty nine paise only) as on 17-06-2021
JAIPUR	NHL/JPR/0919/744935	Mr. Ashok Kumar Marotiya, Mrs. Norti DeviR/oGanesh Pura Gokul Nagar W No 42 BeawarAjmer, Rajasthan	16.06.2021	Rs. 19,88,882.46 (Rupees Nineteen Lakhs Eighty-Eight Thousand Eight Hundred Eighty-Two and Forty-Six Paise Only) as on 16.06.2021
JAIPUR	NHL/JPR/1018/595522	Mr. Brij Mohan Sharma, Mr. Gaurav Sharma & Mrs. Madhu SharmaR/o22 To 23 Pnt Colony Ke Pass Vignyan Nagar, Kota, Rajasthan	16.06.2021	Rs. 53,22,468.56 (Rupees Fifty-Three Lakhs Twenty-Two Thousand Four Hundred Sixty-Eight and Fifty-Six Paise Only) as on 16.06.2021
JAIPUR	NHL/JPR/0219/656172	Mr. Hemant Kumar Sharma, Vichitra Bhojnalya, & Mrs. Geeta SharmaR/o211/39 Arjun Lal Sethi Nagar Parbat Pura, Ajmer, Rajasthan	16.06.2021	Rs. 9,05,594.85 (Rupees Nine Lakhs Five Thousand Five Hundred Ninety-Four and Eighty-Five Paise Only) as on 16.06.2021
BIKANER	NHL/BIK/0717/409598 & NHL/BIK/1018/591961	Mr. Ganesh Solanki, Mr. Bhomraj Solanki, Mrs. Surendra Kumar Solanki,R/oOpp. Kachawa ICE Factory, Gajner Road, Bikaner Rajasthan-334001	16.06.2021	Rs. 51,80,626.11 (Rupees Fifty One Lacs Eighty Thousand Six Hundred Twenty Six and Paise Eleven Only) as on 16.06.2021
BIKANER	HOU/BIK/0319/657946	Mr. RAKESH KUMAR, Mrs. KOUSHALYA DEVIR/OHOUSE NO. 20, BHOOP COLONY, S.S.B. ROAD, GALI NO. 1, SRIGANGANAGAR, RAJASTHAN, 335001	16.06.2021	Rs. 10,92,637.60 (Rupees Ten Lacs Ninety Two Thousand Six Hundred Thirty Seven and Paise Sixty Only) as on 16.06.2021
BIKANER	0027670001143 & 0027670001233	Mr. Ganpat Ram Suthar, Mr. Lekhram SutharR/ohouse No. 120, Ward No. 6, Near Lakhara Shiv Temple, Nokha, Dist- Bikaner Rajasthan-334803	23.06.2021	Rs. 7,78,019.54 (Rupees Seven Lacs Seventy Eight Thousand & Nineteen and Paise Fifty Four Only) as on 23.06.2021
BIKANER	HOU/BIK/0918/577136	Mr. DAVENDER DHOLPURIYA, Mr. Amichand Nathu ramR/oWard No. 21, Raigar Mohalla, Hanumangarh Town, Hanumangarh, Rajasthan- 335513	23.06.2021	Rs. 17,15,242.51 (Rupees Seventeen Lakhs Fifteen Thousand Two Hundred Forty-Two and Fifty-One Paise Only) as on 23.06.2021

Bank of Baroda
POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)
 (As per Appendix IV read with Rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)
 Whereas, the undersigned being the authorized officer of the Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice Dated 13.04.2021 Calling upon the borrower/legal heir Smt. Mamtesh (Wife) legal heir of Late Sh Bhikam Singh, Master Himanshu (Son) legal heir of Late Sh Bhikam Singh through MNG Smt Mamtesh, Baby Shivani (Daughter) legal heir of Late Sh Bhikam Singh through MNG Smt Mamtesh, Baby Anushka (Daughter) legal heir of Late Sh Bhikam Singh through MNG Smt Mamtesh to repay the amount mentioned in the notice being Rs.9,30,414.77 (Rupees Nine Lakh Thirty Thousand Four Hundred Fourteen Rupees Seventy Seven Paise only) as on 31.03.2021 together with further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower/ Legal heirs having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ Legal heirs and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the Act read with rule 8 of the said Security Interest (Enforcement) rules, 2002 on this 17th day of July of the year 2021. The Borrower/Guarantors/Mortgagors/Legal heirs in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of Baroda for an amount Rs.9,30,414.77 (Rupees Nine Lakh Thirty Thousand Four Hundred Fourteen Rupee Seventy Seven Paise only) and further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment. The Borrower's /Legal heirs attention is invited to provision of sub section (8) of section 13 of the Act. In respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
 Residential Plot No-17 measuring 158.33 sq yard part of Khaska No 150 Rakha 01 Bigha 07 Biswa revenue village Jiroli District Dholpur, Rajasthan situated at Sheela Kunj Colony, Teshil and District Dholpur, Rajasthan standing in the name of late Sh Bhikam Singh S/o Sh Daryay Singh Gurjar. Boundaries: East- Plot No-18, West-12 ft wide road, North- 18 ft wide road, South- 26.6 ft wide Road.
Chief Manager
 (Authorised Officer)
 Date: 17.07.2021 Place: Dholpur

AAR COMMERCIAL COMPANY LIMITED
 1 - 7, JANGPURA EXTENSION, NEW DELHI - 110014
 Website: www.aarcd.in; Tel: 011-41645392; Mobile: 8017563471
 E-mail ID: investors.commercial@rediffmail.com CIN: L63000DL1982PLC254818
UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021
 (₹ in Lacs except EPS)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		30.06.2021	30.06.2020	31.03.2021	31.03.2020
1.	Total Income from Operations (Net)	-	-	-	1.49
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax Exceptional and/or Extraordinary Items)	(7.03)	(7.07)	(5.15)	(18.94)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(7.03)	(7.07)	(5.15)	(18.94)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(7.03)	(7.07)	(5.15)	(18.94)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(7.03)	(7.07)	(5.15)	6514.40
6.	Paid up Equity Share Capital	1001.40	1001.40	1001.40	1001.40
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	(0.070)	(0.071)	(0.05)	(0.19)
	1. Basic:	(0.070)	(0.071)	(0.05)	(0.19)
	2. Diluted:	(0.070)	(0.071)	(0.05)	(0.19)

NOTES:
 1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2021 (UFR) filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
 2. The above Unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective Meetings held on 22nd July, 2021. UFR have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors
AAR COMMERCIAL COMPANY LIMITED
 Anupam Khetan
 (DIN: 07003797)

Date : 22nd July, 2021
 Place : New Delhi

HP COTTON
 TEXTILE MILLS LTD
H.P. COTTON TEXTILE MILLS LIMITED
 (CIN: L18101HR1981PLC012274)
 Regd. Office: 15th K.M. Stone, Delhi Road, V.P.O. Mayar, Hisar-125044
 Website: www.hpthreads.com E-mail: info@hpthreads.com
 Tel: +91 11 41540471/72/73, Fax: +91 11 49073410
NOTICE TO SHAREHOLDERS
Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IETF) Authority

This notice is published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("the Rules"). The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, in the name of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

Adhering to the requirements set out in the Rules, the Company has already communicated individually, the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IETF Authority during the financial year 2021-22 for taking appropriate action.

The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to IETF Authority on its website at www.hpthreads.com. Shareholders are requested to refer to the website: <https://www.hpthreads.com/corporate-information.php> to verify the details of the shares liable to be transferred to the IETF Authority.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IETF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IETF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IETF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of dematerialisation and transfer of shares to IETF Authority as per the Rules and upon such issue, the original certificate(s) which stands registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of new certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IETF Authority pursuant to the Rules.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by **October 24, 2021**, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the Rules, dematerialise and transfer the shares to IETF Authority by way of corporate action with the due date as per procedure stipulated in the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Registrar and Transfer Agents of the Company, **Ankit Assignments Limited**, Ananki House 4E2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, Tel: +91-11-4254 1234; Fax: +91-11-4254 1201; Email: info@ananki.com.

For H.P. Cotton Textile Mills Limited
 Sd/-
 Shubham Jain
 Company Secretary

MUKAT PIPES LIMITED
Registered Office: Flat No. 39, Parag Apartments, 7th Floor, J.P. Road, Versova, Andheri (West), Mumbai 400061. **CIN:** L27200MH1987PLC044407
 Website: www.mukatpipes.com e-mail: mukatpipes@gmail.com
 Tel: 01762-225040, Fax: 01762-222390

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2021 (Rs. In Lacs)

Particulars	Quarter ended		Previous year ended 31.03.2021 (Audited)
	30.06.2021 (Unaudited)	30.06.2020 (Unaudited)	
Total income from operations (net)	129.96	12.52	615.35
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items #)	(7.24)	(22.97)	(9.42)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items #)	(7.24)	(22.97)	(9.42)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items #)	(7.24)	(22.97)	(9.42)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(7.24)	(22.97)	(9.42)
Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs. 5/- each per Share)	591.50	591.50	591.50
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	(1273.70)
Earnings Per Share (Face Value Rs.5/-) (for continuing and discontinued operations)	(0.06)	(0.19)	(0.08)
Basic	(0.06)	(0.19)	(0.08)
Diluted	(0.06)	(0.19)	(0.08)

Notes:
 1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's website www.mukatpipes.com and on the website of BSE i.e. www.bseindia.com.
 2) The Unaudited Financial Results for the quarter ended on 30.06.2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 22/07/2021.
 3) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

For MUKAT PIPES LIMITED
 Sd/-
 (RUPINDER SINGH AHLUWALIA)
 CHAIRMAN
 DIN - 01239483

Date: 22-07-2021
 Place: Rajpura

ASTECS LIFE SCIENCES LIMITED
 Corporate Identity Number (CIN): L99999MH1994PLC076236
 Registered Office: "Godrej One", 3rd Floor, Pirojshanagar,
 Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai - 400 079, Maharashtra
 Tel.: +91 22 2518 8010, Fax: +91 22 2261 8289,
 Website: www.astecls.com, Email: asteclsinvestors@godrejastecl.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS
TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) WHEREIN DIVIDEND IS UNCLAIMED FROM THE FINANCIAL YEAR 2013-14

NOTICE IS HEREBY GIVEN to the Shareholders of **ASTECS LIFE SCIENCES LIMITED** ("the Company"), pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") (including any amendment(s)/modification(s)/re-enactment(s) thereof).

The Act and the Rules, *inter alia*, contain provisions for transfer of all Shares, in respect of which, Dividend has not been paid or claimed for 7 (seven) consecutive years or more to Investor Education and Protection Fund ("IEPF") established by the Central Government. However, where there is a specific order of the Court or Tribunal or statutory authority restraining any transfer of such shares and payment of Dividend or where such Shares are pledged or hypothecated under the provisions of the Depositories Act, 1996, the Company will not transfer such Shares to IEPF.

Complying with various requirements set out in the Act and the Rules, the Company has sent individual communication to the concerned Shareholders whose Dividend has remained unclaimed for the Financial Year 2013-14 and onwards and therefore, whose Equity Shares are liable to be transferred to IEPF during the Financial Year 2021-22, at their latest available address(es) registered with the Company and the Registrar and Share Transfer Agents, Bigshare Services Private Limited, vide our letter dated 22nd July, 2021, giving them the opportunity to claim the Unclaimed Dividend and Equity Shares, **latest by Saturday, 23rd October, 2021**, to avoid transfer to IEPF, by making an application to the Company or the Company's Registrar & Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited, along with the requisite documents. The concerned Shareholders are requested to send their claims **preferably by Friday, 8th October, 2021** in order to allow sufficient time for processing their claims.

The Company has uploaded the list of Shareholders containing details of the names of the Shareholders, Folio Number or DP ID and Client ID and the number of Equity Shares due for transfer to IEPF on its website www.astecls.com, which the Shareholders are requested to verify.

The concerned Shareholders holding Equity shares in physical form and whose Equity Shares are liable to be transferred to IEPF may note, that the Company will be issuing Duplicate Share Certificate(s) in lieu of the Original Share Certificate(s) held by them for the purpose of transfer of such Equity Shares to IEPF and consequently the Original Share Certificate(s) will stand automatically cancelled and be deemed to be non-negotiable. The Shareholders may further note that the details of the concerned Shareholders uploaded on the website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of Duplicate Share Certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of Equity Shares to IEPF. In case the concerned Shareholders, holding Equity Shares in Demat mode / Electronic mode, the Equity Shares shall be directly transferred to IEPF, with the help of Depository Participants, without any further notice.

Notice is hereby given that, in case no valid claims in respect of such Equity Shares is received from the Shareholders by the due date or such other date as may be extended, the Company shall with a view to comply with requirements set out in the Rules, be compelled to transfer the Equity Shares to IEPF by the due date, as per procedure stipulated in the Rules, without any further notice. **Please note that no claim shall lie against the Company in respect of Unclaimed Dividend amount(s) and Equity Shares transferred to IEPF.**

Kindly note that all the future benefits, including but not limited to, Dividend arising on such Equity Shares would also be credited to IEPF. Shareholders may also note that both the Unclaimed Dividend and the Equity Shares transferred to the IEPF, including all benefits accruing on such Equity Shares, if any, can be claimed back by them from IEPF after following the procedure prescribed in the Rules, details of which are available at www.iepf.gov.in.

For any information / clarifications on the subject matter, concerned Shareholders may write to the Company at asteclsinvestors@godrejastecl.com or contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, Bigshare Services Private Limited, Bharat Tin Works Building, 1st Floor, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri - East Mumbai - 400059, Maharashtra, Tel: 022-62638200, E-mail: investor@bigshareonline.com.

A copy of this Notice is made available on the website of the Company, www.astecls.com and also on the website(s) of Stock Exchange(s) (viz., BSE Limited at www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

For Astec Life Sciences Limited
 Sd/-
 Tejashree Pradhan
 Place: Mumbai
 Company Secretary & Compliance Officer

PUBLIC NOTICE
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to inform the General Public that following share certificate of WOCKHARDT LTD. having its Registered at Wockhardt Research Centre, D - 4, MIDC, Chikalthana, Aurangabad, Maharashtra, 431006. Registered in the name of the following shareholder/s have lost by them.

Name(s) of holder(s) (and Jt. holder(s)),	Folio No.	Share Cert.No	Distinctive Nos.	No. of Shares
Amala Vivek Rege jointly with Vivek M Rege	W0000771	100257	41456637-41457836 93392323-93392922	1200 600

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificates. Any person who has any claim in respect of the said share certificate/s should lodge such claim with Company or its Registrar and Transfer Agents **Link Intime India Pvt. Ltd. C 101, 247 park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra, 400083**. Within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate/s.

Name of Share Holder
AMALA VIVEK REGE jointly with VIVEK M REGE.
 13/A Hamroy, 13th Floor, Dr. E Moses Road, Worli Naka Worli, Mumbai - 400018.

Place: MUMBAI
 Date: 23-07-2021

SKYLINE MILLARS LIMITED
 CIN: L63020MH1919PLC00640
 Regd. Office: Churugate House, 4th Floor, 32-34, Veer Nariman Road, Fort, Mumbai 400 001. Website: www.skylinemillarsltd.com, Email: cs@millars.in Tel: +91 22 22047471

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 5th August, 2021 at 3.45 p.m. through Video Conference, inter-alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the first quarter ended 30th June, 2021

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.skylinemillarsltd.com and also on the website of the stock exchange viz., BSE Limited - www.bseindia.com.

For SKYLINE MILLARS LIMITED.
 Sd/-
 Maulik Dave
 Whole-time Director
 DIN:01448536
 Date : 23rd July, 2021
 Place : Mumbai

PUBLIC NOTICE

It is announced that Public Trust known as Acharya Shree Nanesha Samta Trust registered under the Maharashtra Public Trust Act, 1950, Greater Mumbai Region, Mumbai bearing PTR No. E-19261 (Mumbai) is going to sale an immovable property own by the trust on "as is where is basis". The description of property is given hereunder. Interested individuals or organization are requested to submit their proposal in sealed envelopes along with a demand draft of 5% of amount proposed by them drawn in the name of trust between 11 am to 4 pm excluding holidays and Sundays of publication of this advertisement as under. Only eligible individuals and organization would be contacted for further proceeding. Demand Draft of non qualified individuals and organization would be returned back. The envelopes found without requisite EMD will not be considered for bidding. It should be noted that trustees reserved their right to accept/reject offers with or without notification or even withdraw the invitation to offer without assigning any reasons whatsoever.

Date of Inspection of Flat : 23/07/2021 to 22/08/2021 (between 11 am to 2 pm)
 Cost of Bidding Form : Rs. 10,000/-
 Date of Sale of Bidding Forms : 23/07/2021 to 22/08/2021 (between 11 am to 2 pm)
 Reserved Price : Rs. 1,70,00,000/-
 EMD : 5%
 Date of Submission : 23/07/2021 to 22/08/2021 (between 11 am to 4 pm)
 Date & Time of Opening of Bidding sealed envelopes : 23/08/2021 at 11 pm
 Bid Meeting to enhance offer : 23/08/2021 at 2 pm.

SCHEDULE OF FLAT

Flat No. 101/A, admeasuring 1199 square feet carpet area comprising 3 BHK on 1st Floor, Wing 'A' in the building consisting of stilt plus 9th Floor with lift facility known as "JEERAWALI RESIDENCY" with one basement car parking situated at Derasar Lane, Ghatkopar (East), Mumbai- 400 077 constructed on plot bearing plot bearing CTS No. 5229A Ghatkopar, Kiroli Village.

Place : Mumbai
date : 23.07.2021

Sd/-
 Mr. Kamal Jain - Reporting Trustee
Acharya Shree Nanesha Samta Trust
 Novelty Cinema, 5th Floor, Grant Road (E).
 Mumbai- 400 007. Tel. No. 022 23021220

OrchidPharma
 — A Dhanuka Group Company —
ORCHID PHARMA LIMITED
 CIN: L24227TN1992PLC022994
 Regd. Office: 'Orchid Towers', #313, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam Chennai - 600 034, Tamil Nadu, India. Tel: +91 - 2821 1000 Fax: +91 - 44 - 2821 1002
 E-mail : corporate@orchidpharma.com | Website : www.orchidpharma.com

NOTICE OF THE 28th ANNUAL GENERAL MEETING E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Orchid Pharma Limited will be held on **Friday, August 13, 2021 at 12:15 P.M. (IST)** through Video Conferencing Facility (VC) Other Audio Visual Means (OAVM) for the transaction of the Ordinary and Special businesses, as set out in the Notice of the AGM.

In view of the continuing COVID-19 global pandemic, the Ministry of Corporate Affairs vide its Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 read with Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 allows conducting of AGM of the Company through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) without the physical presence of the Members for the meeting at a common venue. In terms of the said circulars and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and relevant circulars of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. Hence, Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated January 15, 2021 read with Circular dated May 12, 2020, the Notice of the 28th AGM along with the Annual Report 2020-21 is being sent only through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agents or Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide the above MCA Circulars and the SEBI Circular. Members may note that the Notice of the 28th AGM and the Annual Report 2020-21 of the Company is available on the website of the Company at www.orchidpharma.com and on the websites of National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and BSE Limited www.bseindia.com. A copy of the same is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (agency providing the VC/OAVM facility. Remote e-voting facility and e-voting system during the AGM) i.e., www.evotingindia.com. For any communication, the shareholders may also send requests to the following mail id: nikitak@orchidpharma.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members electronic voting facility before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means.

In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2020/242 dated December 09, 2020 on e-voting facility provided by Listed companies, individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participant(s) by way of a single login credential. Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Manner of registering/updating e-mail addresses:
 Members holding shares in physical form who have not yet registered their e-mail addresses with the Company, may get their email id registered by submitting necessary details like Folio No., Name of Shareholder along with scanned copy of valid share certificate (front and back both), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), ADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card), email id and mobile number by e-mail to the Company at nikitak@orchidpharma.com / to the RTA (Integrated Registry Management Services Private Limited) at yuvraj@integratedindia.in.

Members holding shares in dematerialized form who have not registered their e-mail address are requested to register/update the e-mail address and mobile number with your Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts.

E-Voting: The detailed instructions for remote e-voting are given in the Notice of the 28th AGM of the Company. Members are requested to note as follows:
The remote e-voting period shall commence on Monday, August 09, 2021 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Thursday, August 12, 2021 at 5:00 P.M. (IST).
 Members will not be able to cast their vote through remote e-voting beyond the said date and time and the remote e-voting module shall be disabled by CDSL, thereafter. Additionally, the facility for e-voting shall also be made available at the time of AGM for Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right through e-voting during the AGM. A Member who has exercised his right to vote through remote e-voting may participate in the AGM but shall not be entitled to vote again.
 Members whose names appear on the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date for e-voting i.e., **Friday, August 06, 2021**, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting at the AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member after despatch of the Notice but before the cut-off date for voting i.e., **Friday, August 06, 2021** may obtain the login ID and password by sending an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID No. or contacting our Registrar and Share Transfer Agents (RTA) M/s Integrated Registry Management Services Private Limited, 2nd Floor, Kences Towers, No. 1, Ramakrishna Street, North Usman Road, T. Nagar, Chennai - 600 017, Tamil Nadu, Phone: 044-2824 4355, E-mail: yuvraj@integratedindia.in. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
 CS P Muthukumar, M/s P Muthukumar & Associates, Practising Company Secretaries, Chennai has been appointed as Scrutiniser for conducting the voting process (electronically or otherwise) in a fair and transparent manner. The results declared along with the Scrutiniser's report shall be placed on the Company's website www.orchidpharma.com and the website of CDSL www.evotingindia.com and simultaneously communicated to the National Stock Exchange of India Limited and the BSE Limited, where the shares of the Company are listed, not later than forty eight hours after the conclusion of AGM.

Book Closure: Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from **Friday, August 06, 2021 to Friday, August 13, 2021 (both days inclusive)** on account of the 28th AGM of the Company.
 Any query/grievance in relation with voting by electronic means may be addressed to Ms. Nikita K, Company Secretary & Compliance Officer, Orchid Pharma Limited, 'Orchid Towers', No. 313, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034, Phone No.: 044-2824 4355, E-mail: nikitak@orchidpharma.com or to M/s Integrated Registry Management Services Private Limited, 2nd Floor, Kences Towers, No. 1, Ramakrishna Street North Usman Road, T. Nagar, Chennai - 600 017, Tamil Nadu, Registrar and Share Transfer Agent, Phone: 044-2814 0801-803, E-mail: yuvraj@integratedindia.in or call CDSL on 022-2358542/43 or email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

For Orchid Pharma Limited
 Sd/-
 Nikita K
 Place: Chennai
 Date : July 22, 2021
 A DHANUKA GROUP COMPANY
 Company Secretary

RPG LIFE SCIENCES LIMITED
 An IRPG Company
 Regd. office: RPG House, 463, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 030.
 CIN: L24232MH2007PLC169354;
 Tel: +91-22-2498 1650; Fax: +91-22-2497 0127
 E-mail: info@rpglifesciences.com; Web: www.rpglifesciences.com

NOTICE
TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) ACCOUNT

This Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 2016, as notified and amended from time to time (collectively referred as "the IEPF Rules") in connection with the transfer of those equity shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account in respect of which dividends have not been claimed by shareholders for 7 (Seven) or more consecutive years.

Notice is also hereby given to those shareholders to whom the Company has allotted One Equity Share of face value of Rs.8/- each fully paid up for every One Equity Share of Rs.10/- each held pursuant to the Scheme of Arrangement dated December 14, 2007 and the said share certificate was returned by postal authorities due to insufficient / incorrect address & remained unclaimed with our Registrar and Transfer Agent, which remained unclaimed and subsequently, transferred to "Unclaimed Suspense Account" of the Company ("Company's Suspense Account") in accordance with erstwhile Clause 5A of the Listing Agreement (now Regulation 39(4) read with Schedule VI of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ("Clause 5A"). The concerned shareholders have neither claimed their shares nor the dividend declared thereon since FY 2013-14. As per IEPF Rules their shares are also liable to be transferred from the Company's Suspense Account to the IEPF Account. Accordingly, individual communication is being sent to all the concerned shareholders, whose share(s) are liable to be transferred to IEPF Suspense Account, at their address available with the Company. The Company has already uploaded on its website www.rpglifesciences.com under the Section "Investors", details of such shareholders and their shares which are due for transfer to IEPF Account. The concerned shareholders are requested to refer the above website to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF Account.

Shareholders may also note that both the unclaimed dividends and unclaimed shares including all benefits accruing on such shares, if any, once transferred to IEPF can be claimed back from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the IEPF Rules. Shareholders may note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and unclaimed shares transferred to IEPF Account.

Concerned shareholders, holding such shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Account, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of original share certificate(s) held by them for transfer to the IEPF and the original share certificate(s) held by the shareholders shall stand cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the IEPF Account pursuant to the IEPF Rules. In respect of equity shares held by concerned shareholders in dematerialized form, the Company will initiate corporate action with respective Depositories to transfer these shares to IEPF Account.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by October 24, 2021, the Company shall, with a view to complying with the requirements as set out in the IEPF Rules, transfer the shares to the IEPF Account by the due date as per procedure stipulated in the said Rules.

For claiming the unpaid/unclaimed dividend and/or unclaimed shares or in case you need any information/clarification, please contact Registrar and Share Transfer Agents of the Company viz. Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Tel. No.: 022- 49186000, Fax No. 022-49186060, Email id: iepf.shares@linkintime.co.in.

For RPG Life Sciences Limited
 Sd/-
 Rajesh Shirambekar
 Head - Legal & Company Secretary
 Place: Mumbai
 Date : July 22, 2021

vedanta transforming elements
HINDUSTAN ZINC
 Zinc & Silver of India
 Regd Office : Yashad Bhawan, UDAIPUR-313 004
 PBX No. 0294-6604000, CIN-L27204RJ1966PLC001208, www.hzindia.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2021

(₹ in Crore, except as stated)

Particulars	Quarter ended		Year ended	
	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1 Total income from operations	6,378	6,725	3,898	22,071
2 Net Profit for the period (before tax and exceptional item)	3,157	3,343	1,664	10,574
3 Net Profit for the period before tax (after exceptional item)	3,023	3,343	1,664	10,574
4 Net Profit for the period (after tax and exceptional item)	1,983	2,481	1,359	7,980
5 Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,983	2,475	1,357	7,975
6 Equity Share Capital	845	845	845	845
7 Reserves as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				31,468
8 Earnings Per Share in Rs (of ₹ 2 each) for continuing and discontinued operations				
Basic :	4.69	5.87	3.22	18.89
Diluted:	4.69	5.87	3.22	18.89

NOTES:
 1) The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors on July 22, 2021 and filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly Financial Results are available on the Exchange websites www.nseindia.com & www.bseindia.com and on the Company's website www.hzindia.com.
 2) Figures for previous year and quarter have been revised or reclassified, wherever necessary, for consistency.
 3) The figures of the quarter ended March 31, 2021 are the balancing figures between audited figures for the full financial year ended March 31, 2021 and nine months unaudited published figures up to December 31, 2020.

By Order of the Board
Arun Misra
 CEO & Whole-time Director

Date: July 22, 2021
Place: Udaipur

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, MUMBAI BENCH
 C.P.(CAA)/92/MB-II/2021
 IN
 C.A.(CAA) No. 1068/MB-II/2020
IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND IN THE MATTER OF SECTIONS 230 TO 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULES FRAMED THERE UNDER

AND
IN THE MATTER OF SCHEME OF MERGER BY ABSORPTION OF KLADENET TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED, THE TRANSFEROR COMPANY WITH UNIFYND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED, THE TRANSFEREE COMPANY AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS.

AND
IN THE MATTER OF KLADENET TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED, A Company incorporated under the Companies Act, 2013, and having its registered office at A3-001, Centre Point Condominium, N. M. Joshi Marg Opposite Bawlia Masjid, Lower Panel, Mumbai - 400013. Petitioner Company No.1

AND
UNIFYND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED, A Company incorporated under the Companies Act, 2013, having its registered office at E-4, Gul Apartments, St. Andrews Road, Pali Hill, Bandra (W), Mumbai - 400050. Petitioner Company No.2

NOTICE OF HEARING OF PETITION

A Joint Petition under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 presented by **KLADENET TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED**, the Transferor Company with **UNIFYND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED**, the Transferee Company and their respective shareholders for an Order sanctioning Scheme of Merger by Absorption of **KLADENET TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED**, the Transferor Company with **UNIFYND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED**, the Transferee Company and their respective shareholders was admitted by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench ("Hon'ble Tribunal") on Thursday, 08th day of July, 2021. The said Petition is fixed for hearing before the Hon'ble Tribunal on Thursday, 12th day of August, 2021. Any one desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Petitioner's Advocates Notice of his intention signed by him or his advocate not later than two days before the date fixed for the hearing of the Petition, the grounds of opposition or a copy of affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the Petitioner's Advocates to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Dated this 22nd day of July, 2021

For Rajesh Shah & Co. Advocates for the Petitioners
 16, Oriental Building, 30, Nagindas Master Road, Flora Fountain, Fort, Mumbai - 400001.

HP COTTON
 TEXTILE MILLS LTD
H.P. COTTON TEXTILE MILLS LIMITED
 (CIN: L18101HR1981PLC012274)
 Regd. Office: 15th K.M. Stone, Delhi Road, V.P.O. Mayar, Hissar-125044
 Website: www.hpthreads.com E-mail: info@hpthreads.com
 Tel: +91 11 41540471/72/73, Fax: +91 11 49073410

NOTICE TO SHAREHOLDERS
Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

This notice is published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("the Rules"). The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, in the name of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

Adhering to the requirements set out in the Rules, the Company has already communicated individually, the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority during the financial year 2021-22 for taking appropriate action. The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF Authority on its website at www.hpthreads.com. Shareholders are requested to refer to the website <https://www.hpthreads.com/corporate-information.php> to verify the details of the shares liable to be transferred to the IEPF Authority.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Authority, including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of dematerialisation and transfer of shares to IEPF Authority as per the Rules and upon such issue, the original certificate(s) which stands registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of new certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the Rules.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by **October 24, 2021**, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the Rules, dematerialise and transfer the shares to IEPF Authority by way of corporate action by the due date as per procedure stipulated in the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Registrar and Transfer Agents of the Company, **Ankit Assignments Limited**, Ankit House 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, Tel: +91-11-4254 1234; Fax: +91-11-4254 1201; Email: info@ankit.com.

For H.P. Cotton Textile Mills Limited
 Sd/-
 Shubham Jain
 July 22, 2021
 Company Secretary

Mahindra CIE
MAHINDRA CIE AUTOMOTIVE LIMITED
 CIN:L27100MH1999PLC121285
 Registered Office: Suite F9D, Grand Hyatt Plaza (Lobby Level), Off Western Express Highway, Santacruz (E), Mumbai - 400 055. Tel: +91 22 62411031 | Fax: +91 22 62411030
 Website: www.mahindraecie.com | email: mcie.investors@cie-india.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30 JUNE, 2021

(₹ in Million)

PARTICULARS	Consolidated			
	Quarter ended		Six Month ended	
	30 June, 2021	30 June, 2020	30 June, 2021	31 December, 2020
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Revenue	7,237.04	7,534.16	42,627.97	61,050.01
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1,696.73	-1,470.08	3,734.02	1,952.75
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1,361.98	-1,286.83	1,462.92	1,066.31
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)]	1,794.22	-1,212.39	1,214.82	2,743.31
Equity Share Capital	3,790.32	3,790.11	3,790.32	3,790.11
Reserve (excluding revaluation reserve)				45,290.00
Basic Earning Per Share (of 10/- each)				
Continuing Operation	3.59	-3.40	3.86	2.81
Discontinued Operation	-	-	-	-0.01
Diluted Earning Per Share (of 10/- each)				
Continuing Operation	3.59	-3.40	3.86	2.81
Discontinued Operation	-	-	-	-0.01

Notes :
 1

PARTICULARS	Standalone			
	Quarter ended		Six Month ended	
	30 June, 2021	30 June, 2020	30 June, 2021	31 December, 2020
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Turnover	7,237.04	1,930.20	15,793.11	21,645.25
Profit before tax	610.34	-619.70	1,505.18	1,015.10
Profit after tax	453.41	-467.20	-307.57	740

खबर संक्षेप

महारानी जीतेश्वरी कुमारी गिरफ्तार

पन्ना(मप्र)। बेशकीमती हीरों व अकूत संपत्तिको लोकर लंबे समय से विवादों में घिरे मध्य प्रदेश के पन्ना राजघराने की राजमाता

दिलहर कुमारी को शिकायत पर महारानी जीतेश्वरी कुमारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गुरुवार को सेशन कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। दिलहर कुमारी ने जीतेश्वरी व अन्य के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की थी।

देशमुख की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व गृह मंत्री अनिल देसमुख पर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को गुरुवार को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जामदार की पीठ ने कहा कि प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध वाली देशमुख की याचिका 'खारिज किए जाने लायक' है।

पीएम मोदी से मुलाकात करेगी बंगाल की सीएम कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुलाकात के लिए समय दिया है, अगले कुछ दिनों में जब भी वे दिल्ली की यात्रा करेंगे, पीएम से भेंट करेंगी। बंगाल विधानसभा चुनाव के तत्पश्चात् आने के बाद ममता और पीएम मोदी की यह वन-टू-वन पहली मुलाकात होगी।

गृहमंत्री शाह आज करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों के सीएम संग बैठक

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 24 जुलाई को पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक करेंगे जिस दौरान पुलिस क्षेत्र की कानून व्यवस्था एवं कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने की संभावना है। शाह 24-25 जुलाई को दो दिवसीय यात्रा के दौरान शिलांग में एक क्रॉयोजनिक संयंत्र का उद्घाटन करेंगे तथा असम राज्यपाल के मुख्यालय जायेंगे एवं गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। शाह बैठक के अंतर्गत स्पेस अप्लिकेशंस सेंटर (एनईएसएससी) में होंगे।

महाराष्ट्र विधानसभा से एक साल के निलंबन को 12 माजपा विधायकों ने न्यायालय में दी चुनौती

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के माजपा के 12 विधायकों ने पीठासीन अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए राज्य विसे से एक साल के निलंबन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। अधिकारता अतिक्रमण ने कहा कि उन्होंने इन विधायकों को और से शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है और उन्होंने इन विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करने के विस द्वारा प्रस्ताव को चुनौती दी है। इनको पांच जुलाई को राज्य सरकार द्वारा विस अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में एक साल के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था।

सभी धर्मों के पूजा स्थलों के लिए समान कानून की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

देश भर में नौ लाख मंदिरों में से लगभग चार लाख पर सरकारी नियंत्रण

किसी गिरजाघर या मस्जिद से संबंधित कोई ऐसा धार्मिक निकाय नहीं

सुको की दिल्ली दंगा केस में टिप्पणी जमानत को लेकर कानूनी प्रावधानों पर बहस न हो

एजेंसी नई दिल्ली

उत्तरपूर्व दिल्ली दंगों के मामले में तीन छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत रद्द करने के मुद्दे पर विचार करने की अनिच्छा जाहिर करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि जमानत याचिकाओं पर कानून के प्रावधानों को लेकर जो जा रही लंबी बहस परेशान करने वाली है। न्यायमूर्ति एस के नौल और न्यायमूर्ति संभत गुप्ता की पीठ तीन छात्रों को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने पृष्ठा कि पुलिस को जमानत मिलने से दुख है या फैसलों में की गई टिप्पणियों या व्याख्या है। दिल्ली पुलिस की ओर से साॅलिसेटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे दोनों बातों से व्यथित हैं और वे इन पहलुओं पर शीर्ष अदालत को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। पीठ ने मेहता से कहा कि बहुत कम संभावना है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। इसने इशारा किया कि वह तीनों आरोपियों की जमानत रद्द करने के पहलू पर विचार करने को तैयार नहीं हैं।

मानसून सत्र



विपक्ष के हंगामे के बीच ही सरकार ने दो विधेयक पेश किए

सत्र के शुरुआती दो दिन भी कामकाज नहीं हो सका था

हरिभूमि ब्यूरो नई दिल्ली संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों में गुरुवार को भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित की गई है। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में गुरुवार को भी प्रश्नकाल बाधित हुआ और शून्यकाल नहीं हो सका।

सदन जाते अमित शाह



नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को संसद के मानसून सत्र में भाग लेने पहुंचे।

पीपीपी की आवश्यकता

संसद की एक सभिति ने स्वीकार किया है कि देश के छोटे एवं अलाभप्रद हवाई अड्डों की देखरेख और विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) की अपरिहार्य आवश्यकता है।

लदाख में केंद्रीय विवि बनेगा

देश में पेंगासज जासूसी मामले पर हो रहे विरोध के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश लदाख में 750 कृषि की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।


संसद में प्रश्नकाल बाधित नहीं हो सका शून्यकाल

सदन में विपक्ष का हंगामा



पीठासीन सभापति भर्तृहरि महाताब ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर कार्यवाही चलने देने की अपील की। महाताब ने कहा कि सरकार बार-बार कह रही है कि वह हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि विपक्ष के सदस्य कार्यवाही को अवरुद्ध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड समेत हर विषय पर चर्चा को तैयार है। हंगामे के बीच ही पोत परिवहन मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलयान विधेयक, 2021 पेश किया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने

स्पीकर बिरला ने हंगामे पर जताई नाराजगी



लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में हंगामे के बीच प्रश्नकाल शुरू करवाया। जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूरक प्रश्नों के उत्तर भी दिए। सदन में नारेबाजी के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सदन चलने देने की अपील की। यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है। आपको जन्ता ने तखिया दिखाए और नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है। आप मुझे उठाएं, चर्चा करें और जन्ता की समस्याओं के समाधान का प्रयास करें। आपको चर्चा करने का पूरा समय मिलेगा। बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से नाराजगी दिखाते हुए कहा, 'तखिया दिखाए और नारेबाजी करना है तो आप सदन से बाहर चले जाएं।'

रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक पेश किया

अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021 पेश किया। आरएसपी के एन के प्रेमचंद ने अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021 को पेश किये जाने का विरोध करते हुए कहा कि इसमें कर्मचारियों की हड़ताल रोकने का प्रावधान है जो संविधान में मिला मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक कामगार वर्ग के लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त करने वाला है और सदन में व्यवस्था नहीं होने पर इस विधेयक को पेश नहीं कराया जाना चाहिए। शौर-शराबे के बीच ही भट्ट ने विधेयक पेश किया।

कृषि कानून के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन, राहुल गांधी समेत कई शामिल

कांग्रेस सांसदों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर राहुल गांधी की अगुआई में संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस के दोनों सदनों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। खासतौर पर पार्टी की पंजाब इकाई के सांख्य उयादा दिखे। इनके हाथों में 'सेव कंट्री, सेव फार्स' लिखी तखियाएँ लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कुछ समय बाद हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ दिया गया। विरोध प्रदर्शन के कांग्रेस सांसदों ने 'काले कानून वापस लो' 'प्रधानमंत्री न्याय करो' के नारे लगाए। राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वे असत्य, अन्याय, अहंकार पर अड़े हैं, हम सत्याग्रही, निर्भय, एकजुट यहाँ खड़े हैं। जय किसान राहुल गांधी के अत्याल लोकसभा में कांग्रेस के नेता अश्री रंजन चौधरी, लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी, गौवद गोगोई, रघुवीर बिट्टु, रास राधस्य प्रताप सिंह बाजवा और कई अन्य सांसद इस धरने में शामिल हुए।

मौनाक्षी लेखी ने आंदोलनरत किसानों को कह डाला मवाली

नई दिल्ली(ब्यूरो)। केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति मंत्री मौनाक्षी लेखी ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को मवाली कह डाला। उन्होंने कहा है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वे किसान नहीं हैं, मवाली हैं। लेखी ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा का जिक्र करते हुए यह भी कहा है कि प्रदर्शनकारियों का राजनीतिक एजेंडा है। लेखी के इस विवादाित बयान को लेकर सोशल मीडिया पर खूब हंगामा देखने को मिला और ट्विटर पर लोग लेखी के इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। उधर, टिकैत ने मवाली कहे जाने पर कहा कि किसानों के लिए इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए।

येदियुरप्पा का संकेत, पद से हटना निश्चित

बंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एच येदियुरप्पा ने बृहस्पतिवार को संकेत दिया कि उनका पद से हटना निश्चित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें हट छोड़ने की नहीं कह देता। लिंगायत समुदाय के नेता ने कहा कि उन्होंने दो महीने पहले ही इस्तीफा देने की पेशकशी की थी जिसके पीछे उनका उद्देश्य दूसरों के लिए रास्ता खाना था। केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं ने उनके हाल के दिल्ली दौरे में उन्हें हट से हटाने के बारे में कोई बात नहीं की। लिंगायत समुदाय के नेता येदियुरप्पा ने कहा कि पार्टी आलाकाम कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके भविष्य के बारे में 25 जुलाई को उन्हें निर्देश देगा।

कार्यालय मार्केट कमेटी, हिसार (हरियाणा)

सर्व संधारण को सुचित किया जाता है कि नई अनाज मण्डी, हिसार में मार्केट कमेटी, हिसार की कंटीन नं० 1, 3, 4, 5 व 6 को दिनांक 01.08.2021 से 31.07.2022 तक के लिए टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से मासिक किराए पर दिया जाना है। इस टेंडर के लिए निर्धारित फॉर्म कार्यालय मार्केट कमेटी, हिसार रोड, हिसार से दिनांक 31.07.2021 को प्रातः 10:00 बजे से प्रातः करके टेंडर हेतु दोपहर 12:00 बजे तक मार्केट कमेटी कार्यालय में दस्तावेजों व निर्धारित धरोहर राशि सहित जमा करवाया जा सकता है। उपरोक्त टेंडर द्वारा शर्तें इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती हैं। सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी मार्केट कमेटी, हिसार फोन:- 01662-275805

H.P. COTTON TEXTILE MILLS LIMITED

(CIN: L18101HR1981PLC012274)

Regd. Office: 15th K.M. Stone, Delhi Road, V.P.O. Mayar, Hisar-125044

Website: www.hpthreads.com E-mail: info@hpthreads.com

Tel: +91 11 4154 0471/72/73, Fax: +91 11 4907 3410

July 22, 2021

Dear Shareholder,

Sub: Transfer of Equity Shares held by you in the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF)

As per Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto ("the Rules"), all unclaimed dividends are required to be transferred by the Company to IEPF Authority established by Central Government, after the expiry of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account. Details of such unclaimed dividends are regularly updated on the website of the Company. Further, all the shares in respect of which dividend has remained unclaimed for seven consecutive years or more shall also be transferred in the name of IEPF.

To claim the outstanding dividend, kindly first ensure registration of correct bank details including your core banking account no. and IFSC/ MICR of your bank against your demat A/c with your Depository Participant / Registrar and Share Transfer Agent – Alankit Assignments Ltd.

The request letter for claiming unpaid dividend should thereafter be sent alongwith the following document(s) from your registered email address or by way of a letter so as to reach the RTA on or before **October 24, 2021**:

For shares held in demat form:

- Copy of the demat Account Statement (Client master list) showing your name, address, demat and bank account details registered against the demat account.

For shares held in physical form:

- Original Cancelled cheque leaf bearing the name of the first shareholder. or,
- Bank attested copy of first page of the Bank Passbook/Statement of Account in original and a cancelled cheque.

Please note that no payment can be made in absence of complete bank details registered against your account. In case the dividends are not claimed by the said date, necessary steps will be initiated by the Company to transfer shares held by you which are due for transfer to IEPF without further notice, in accordance with the Rules.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the shares so transferred to IEPF.

In case the shares are held by you:

- **In Physical Form:** New Share Certificate(s) will be issued in lieu of the original share certificate(s) held by you for the purpose of dematerialisation and transfer of shares in favour of IEPF. Hence, the original share certificate(s) which stand registered in your name will be deemed cancelled and non-negotiable.
- **In Demat Form:** The Company will inform the depository by way of corporate action for transfer of shares lying in your demat account in favour of IEPF.

In the event of transfer of shares held by you and the unclaimed dividends to IEPF, you are entitled to claim the same from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same duly signed to the Company along with requisite documents enumerated in the Form IEPF- 5.

In case of any queries on the subject matter and the Rules, you may contact the Registrar and Transfer Agents of the Company, **Alankit Assignments Limited**, Alankit House 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, Tel: +91-11-4254 1234; Fax: +91-11-4254 1201; Email: info@alankit.com.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For **H.P. Cotton Textile Mills Limited**

Sd/-

Shubham Jain

Company Secretary